



जीवन जीने की कला.....

सफलता और खुशी जीवन के दो पूरक हैं और अगर इन दोनों में से कोई एक न रहे तो दूसरे का भी मिलना मुश्किल है। यह भी संभव नहीं है कि हर कदम पर सफलता ही हाथ आए या हर समय आप खुश रहे। मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन में कैसे संतुलन बनाए रखे यह जानना बहुत जरूरी है.....

1. सपने देखे, और अपना लक्ष्य निर्धारित करें।
2. अपनी बाधा को हटाएं और अपनी सोच सकारात्मक रखें।
3. एक ही दिशा में काम करें।
4. अपनी योजनाओं का पुनरीक्षण करें।
5. कुशल व्यक्ति से सलाह ले।
6. जीवन के फेर बदल से न भागे और अपने अंदर थोड़ा अहम भी रखें।
7. मुश्किलों का सामना करें।
8. खुश रहे, विवाद से बचें और हमेशा बड़ा सोचे।
9. यह पता लगाएं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है।
10. अपने जीवन को संतुलित बनाना सीखें, अपने अंतर्मन की सुनें और उसका पालन करें।
11. असफलता से मत डरे, कर्मठ बनें जीवन में संघर्ष जरूरी हैं।
12. नए विचार और नई योजनाएँ अपनाने से घबराएं नहीं।

CS Praveen Soni
Central Council Member &
Chairman, ICSI-CCGRT

ICSI-CENTRE FOR CORPORATE GOVERNANCE, RESEARCH & TRAINING (CCGRT)